



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1312]  
No. 1312]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2007/कार्तिक-4, 1929  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2007/KARTIKA 4, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2007

क्र.आ. 1830(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के मोरीगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के 204.400 कि.मी. से 241.000 तक के भूखंड (जागीरोड से ठेकरागुड़ी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इकतीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर उपानुक्त (राजस्व), जिला मोरीगांव, डाकघर मोरीगांव, असम, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

असम राज्य के मोरीगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के 204.400 किमी से 241.000 किमी तक (जागीरोड से टेकरागुड़ी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मोरीगांव	(i) मोभा	(1) पश्चिम नगांव	414	निजी	कृषि	0.134
				230	निजी	आवासीय	0.052
				502	सरकारी	सड़क	0.003
				545	सरकारी	कृषि	0.009
			(2) नखुला गांव	464	निजी	आवासीय	0.028
			(3) जागीरोड रेवेन्यू टाउन	503	निजी	वाणिज्यिक	0.020
				869	निजी	आवासीय	0.012
				852	निजी	वाणिज्यिक	0.027
				864	निजी	वाणिज्यिक	0.004
				431	निजी	वाणिज्यिक	0.020
				763	निजी	आवासीय	0.035
				502	निजी	वाणिज्यिक	0.013
				795	निजी	आवासीय	0.013
				838	निजी	वाणिज्यिक	0.013
				865	निजी	वाणिज्यिक	0.006
				870	निजी	आवासीय	0.047
				840	निजी	आवासीय	0.011
				1157	निजी	आवासीय	0.004
				412	सरकारी	सड़क तरफ	0.040
				695	सरकारी	सड़क	0.007
				871	सरकारी	सड़क	0.004
				1075	सरकारी	ए एस टी सी स्टैंड	0.003
			(4) नखुला ग्रांट	123	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.021
				126	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.051
				127	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.027
				128	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.019
				137	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.205
				138	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.015
				139	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.011
				140	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.020
				143	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.007
				144	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				145	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.011
				146	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.074
				149	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.029
				150	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.187
				153	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.013
				154	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.008
				155	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.034
				158	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.008
				159	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.001
				160	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.007
				164	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.016
				216	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.005
				141	सरकारी	वाणिज्यिक	0.011
			(5) सेवेरिया	319	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.060
				320	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.044
				322	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.040
				323	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.036
				324	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.020
				337	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.059
				339	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.035
				343	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.068
				344	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.068
				345	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.059
				346	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.016
				347	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.027
				525	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.271
				405	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.071
				410	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.096
				321	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.011
				342	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.019
				391	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.007
				406	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.047
				407	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.044
				408	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.055
				538	एच पी सी एल	वाणिज्यिक	0.013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(6)रोमारी	65/228	निजी	कृषि	0.052
				57/185	निजी	कृषि	0.054
				143/206	निजी	आवासीय	0.005
				143/207	निजी	आवासीय	0.004
				161/217	निजी	आवासीय	0.027
				161/219	निजी	आवासीय	0.027
				161/220	निजी	आवासीय	0.067
				161/230	निजी	आवासीय	0.013
				64	सरकारी	कृषि	0.008
				63	सरकारी	कृषि	0.005
				61	सरकारी	कृषि	0.004
				143	सरकारी	आवासीय	0.096
				145	सरकारी	कृषि	0.005
			(7)बामुन गाँव	34	निजी	कृषि	0.103
				164	निजी	कृषि	0.029
				26/260	निजी	कृषि	0.067
				26/261	निजी	कृषि	0.067
				166/278	निजी	कृषि	0.161
				165/279	निजी	कृषि	0.147
				164/280	निजी	कृषि	0.063
				163/281	निजी	कृषि	0.054
				178/284	निजी	आवासीय	0.021
				160/269	निजी	कृषि	0.013
				6	सरकारी	कृषि	0.038
				7	सरकारी	कृषि	0.151
				33	सरकारी	कृषि	0.217
				28	सरकारी	कृषि	0.013
				171/327	सरकारी	कृषि	0.174
				178	सरकारी	आवासीय	0.028
				231	सरकारी	सड़क तरफ	0.013
				232	सरकारी	सड़क	0.020
				233	सरकारी	सड़क तरफ	0.033
				234	सरकारी	सड़क तरफ	0.043
				235	सरकारी	नदी	0.094
				34/311	सरकारी	सड़क	0.050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(ii) उत्तरखुला	(8) बोरखाल	52 भाग	निजी	कृषि	0.094
				278 भाग	निजी	कृषि	0.058
				277 भाग	निजी	कृषि	0.100
				275	निजी	कृषि	0.013
			(9) कुमारबोरी	130	निजी	आवासीय	0.011
			(10) निजखुला	381	निजी	आवासीय	0.107
				439	निजी	आवासीय	0.006
			(11) हटखुला	13	निजी	आवासीय	0.010
			(12) खुलापथार	278	निजी	कृषि	0.283
				301	निजी	आवासीय	0.044
				276	निजी	आवासीय	0.082
			(13) बानपाड़ा दोरापानी	96	निजी	कृषि	0.010
			(14) पलाहगुड़ी	404	निजी	आवासीय	0.115
				403	निजी	आवासीय	0.026
				406	निजी	आवासीय	0.049
				408	निजी	आवासीय	0.026
				407	निजी	आवासीय	0.018
				405	निजी	कृषि	0.050
				340	निजी	आवासीय	0.082
				341	निजी	कृषि	0.120
				183	निजी	आवासीय	0.060
				329	निजी	आवासीय	0.100
				363	निजी	आवासीय	0.006
				318	निजी	कृषि	0.026
				254	निजी	आवासीय	0.082
				264	निजी	कृषि	0.119
			(15) उत्तर धर्मतुल	268	निजी	कृषि	0.074
				269	निजी	कृषि	0.007
				350	निजी	कृषि	0.007
				351	निजी	कृषि	0.040
				356	निजी	कृषि	0.040
				357	निजी	कृषि	0.029
				359	निजी	कृषि	0.039
				361	निजी	कृषि	0.007
				360	निजी	कृषि	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				369	निजी	कृषि	0.222
				370	निजी	कृषि	0.354
				371	निजी	कृषि	0.919
				377	निजी	कृषि	0.215
				378	निजी	कृषि	0.228
				379	निजी	कृषि	0.231
				380	निजी	कृषि	0.639
				381	निजी	कृषि	0.383
				383	निजी	कृषि	1.445
				384	निजी	कृषि	0.487
				385	निजी	कृषि	0.037
				412	निजी	कृषि	0.397
				413	निजी	कृषि	0.217
				415	निजी	कृषि	0.026
				236	निजी	कृषि	0.015
				235	सरकारी	कृषि	0.024
				416	सरकारी	सड़क	0.059
				443	सरकारी	सड़क तरफ	0.086
				439	सरकारी	सड़क तरफ	0.127
				258	सरकारी	सड़क	0.005
				282	सरकारी	सड़क	0.045
				434	सरकारी	सड़क तरफ	0.016
				437	सरकारी	सड़क	0.020
				438	सरकारी	सड़क तरफ	0.043
				440	सरकारी	पुस्तकालय	0.029
				446	सरकारी	सड़क	0.055
				450	सरकारी	सड़क तरफ	0.086
			(16)पुब धर्मतुल	140	निजी	कृषि	0.011
				225	निजी	कृषि	0.019
				278	निजी	आवासीय	0.004
				279	निजी	आवासीय	0.009
				207	निजी	कृषि	0.007
				80	निजी	कृषि	0.027
				11	सरकारी	सड़क	0.018
				13	सरकारी	कृषि	0.021
				391	सरकारी	कृषि	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(17) ठेकागुड़ी	248	सरकारी	कृषि	0.171
			81	249	सरकारी	कृषि	0.103
			12	259	सरकारी	कृषि	0.071
			160	260	सरकारी	कृषि	0.066
			141	302	सरकारी	कृषि	0.321
			151	303	सरकारी	सड़क	0.040
			877	305	सरकारी	कृषि	0.207
			217	322	सरकारी	सड़क	0.067
			051	328	सरकारी	सड़क	0.024
			151	232	सरकारी	आवासीय	0.123
			200	252	सरकारी	सड़क	0.171
			(18) मोरीकलो	548	निजी	कृषि	0.027
			233	375	सरकारी	रेलवे सड़क तरफ	0.120
			181	376	सरकारी	रेलवे सड़क तरफ	0.045
			483	377	सरकारी	रेलवे लाइन	0.134
			2	378	सरकारी	रेलवे सड़क तरफ	0.074
			82	379	सरकारी	रेलवे सड़क तरफ	0.106
			40	464	सरकारी	सड़क तरफ	0.003
			1	470	सरकारी	सड़क	0.003
			12	481	सरकारी	सड़क	0.003
			83	197	सरकारी	आरक्षित	0.019
			82	448	सरकारी	सड़क	0.020
			081	485	सरकारी	सड़क	0.012
			191	550	सरकारी	सड़क	0.087
			(19) रुपाईचोरी	525	सरकारी	कृषि	0.201
			151	739	सरकारी	कृषि	0.230
			151	877	सरकारी	सड़क	0.007
			(20) डुरुलाडुडी	3	सरकारी	सड़क तरफ	0.298
			151	4	सरकारी	सड़क	0.011
			151	43	सरकारी	कृषि	0.004
			57	44	सरकारी	सड़क तरफ	0.474
			11	48	सरकारी	सड़क तरफ	0.225
			82	59	सरकारी	सड़क	0.007
			12	78	सरकारी	सड़क तरफ	0.830
			8	87	सरकारी	कृषि	0.004
			84	88	सरकारी	कृषि	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				104	सरकारी	सड़क	0.013
				136	सरकारी	छोटा नदी	0.404
				116	सरकारी	सड़क	0.763
				47	सरकारी	सड़क	0.028
			(21)बंगल धारा	1083	सरकारी	सड़क तरफ	0.013
				1144	सरकारी	सड़क	0.005
				1171	सरकारी	कृषि	0.027
				1178	सरकारी	सड़क तरफ	0.020
				1179	सरकारी	सड़क	0.020
				1180	सरकारी	सड़क तरफ	0.037
				1181	सरकारी	कृषि	0.173
				1203	सरकारी	सड़क	0.005
				1216	सरकारी	कृषि	0.074
				1229	सरकारी	कृषि	0.087
				1484	सरकारी	तालाब	0.029
				1588	सरकारी	आरक्षित	0.040
			(22)मोराकलोग	4	सरकारी	कृषि	0.007
				38	सरकारी	सड़क	0.034
				94	सरकारी	सड़क	0.025
			(23)आहटगुडी	14	सरकारी	आरक्षित	0.126
				37	सरकारी	सड़क	0.012
				56	सरकारी	वैटिनरी	0.063
				59	सरकारी	एल पी स्कूल	0.107
				180	सरकारी	सड़क	0.047
				181	सरकारी	सड़क तरफ	0.021
				182	सरकारी	सड़क तरफ	0.055
				774	सरकारी	वाणिज्यिक	0.073
				772	सरकारी	आरक्षित	0.122
				222	सरकारी	आरक्षित	0.040
				225	सरकारी	सड़क	0.011
				223	सरकारी	आरक्षित	0.025
			(24)चीपरी बील	72	सरकारी	पाईप लाइन	0.023
				11	सरकारी	सड़क	0.020
				28	सरकारी	सड़क	1.496
				37	सरकारी	सड़क	0.004
				3	सरकारी	कृषि	0.285
				83	सरकारी	सड़क	0.007



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(25)मिकिरगौव	659	सरकारी	सड़क तरफ	0.027
				704	सरकारी	सड़क तरफ	0.179
				705	सरकारी	कृषि	0.004
				724	सरकारी	कृषि	0.005
				730	सरकारी	तालाब	0.035
				758	सरकारी	कृषि	0.039
				781	सरकारी	सड़क तरफ	0.008
				797	सरकारी	कृषि	0.147
				809	सरकारी	स्कूल	0.064
				810	सरकारी	स्कूल	0.060
				825	सरकारी	आरक्षित	0.123
				828	सरकारी	सड़क	0.013
				837	सरकारी	वाणिज्यिक	0.027
			(26)अलीसिंगा	365	निजी	आवासीय	0.051
				373	निजी	कृषि	0.013
				374	निजी	कृषि	0.016
				375	निजी	कृषि	0.013
				376	निजी	कृषि	0.020
				344	निजी	कृषि	0.020
				352	निजी	कृषि	0.017

[फा. सं. भारासप्रा/13011/10/एलए-एनबी/2003]

प्रभाकर, उप सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2007

**S.O. 1830(E).**— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning etc) maintenance, management and operation of National Highway No 37, in the stretch of land from Km 204.400 to Km 241.00 (Jagiroad - Thekeraguri Section) in District Morigaon in the State of Assam, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional Deputy Commissioner, (Revenue), Morigaon, District, P.O. Morigaon, Assam, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of lands to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 204.400 to Km 241.000 (Jagiroad-Thekeraguri Section) of NH-37 in Morigaon District in the State of Assam.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Morigaon	(1)Gobha	(1)Paschim Nagaon	414	Private	Agricultural	0.134
				230	Private	Residential	0.052
				502	Govt. Land	Road	0.003
				545	Govt. Land	Agricultural	0.009
			(2)Nakhula Gaon	464	Private	Residential	0.028
			(3)Jagiroad Revenue Town	503	Private	Commercial	0.020
				869	Private	Residential	0.012
				852	Private	Commercial	0.027
				864	Private	Commercial	0.004
				431	Private	Commercial	0.020
				763	Private	Residential	0.035
				502	Private	Commercial	0.013
				795	Private	Residential	0.013
				838	Private	Commercial	0.013
				865	Private	Commercial	0.006
				870	Private	Residential	0.047
				840	Private	Residential	0.011
				1157	Private	Residential	0.004
				412	Govt. Land	Road side	0.040
				695	Govt. Land	Road	0.007
				871	Govt. Land	Road	0.004
				1075	Govt. Land	ASTC stand	0.003
			(4)Nakhula Grant	123	H.P.C.L.	Commercial	0.021
				126	H.P.C.L.	Commercial	0.051
				127	H.P.C.L.	Commercial	0.027
				128	H.P.C.L.	Commercial	0.019
				137	H.P.C.L.	Commercial	0.205
				138	H.P.C.L.	Commercial	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				139	H.P.C.L.	Commercial	0.011
				140	H.P.C.L.	Commercial	0.020
				143	H.P.C.L.	Commercial	0.007
				144	H.P.C.L.	Commercial	0.015
				145	H.P.C.L.	Commercial	0.011
				146	H.P.C.L.	Commercial	0.074
				149	H.P.C.L.	Commercial	0.029
				150	H.P.C.L.	Commercial	0.187
				153	H.P.C.L.	Commercial	0.013
				154	H.P.C.L.	Commercial	0.008
				155	H.P.C.L.	Commercial	0.034
				158	H.P.C.L.	Commercial	0.008
				159	H.P.C.L.	Commercial	0.001
				160	H.P.C.L.	Commercial	0.007
				164	H.P.C.L.	Commercial	0.016
				216	H.P.C.L.	Commercial	0.005
				141	Govt. Land	Commercial	0.011
			(5)Tegheria	319	H.P.C.L.	Commercial	0.060
				320	H.P.C.L.	Commercial	0.044
				322	H.P.C.L.	Commercial	0.040
				323	H.P.C.L.	Commercial	0.036
				324	H.P.C.L.	Commercial	0.020
				337	H.P.C.L.	Commercial	0.059
				339	H.P.C.L.	Commercial	0.035
				343	H.P.C.L.	Commercial	0.068
				344	H.P.C.L.	Commercial	0.068
				345	H.P.C.L.	Commercial	0.059
				346	H.P.C.L.	Commercial	0.016
				347	H.P.C.L.	Commercial	0.027
				525	H.P.C.L.	Commercial	0.271
				405	H.P.C.L.	Commercial	0.071
				410	H.P.C.L.	Commercial	0.096
				321	H.P.C.L.	Commercial	0.011
				342	H.P.C.L.	Commercial	0.019
				391	H.P.C.L.	Commercial	0.007
				406	H.P.C.L.	Commercial	0.047

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				407	H.P.C.L.	Commercial	0.044
				408	H.P.C.L.	Commercial	0.055
				538	H.P.C.L.	Commercial	0.013
			(6)Roumari	65/228	Private	Agricultural	0.052
				57/185	Private	Agricultural	0.054
				143/206	Private	Residential	0.005
				143/207	Private	Residential	0.004
				161/217	Private	Residential	0.027
				161/219	Private	Residential	0.027
				161/220	Private	Residential	0.067
				161/230	Private	Residential	0.013
				64	Govt. Land	Agricultural	0.008
				63	Govt. Land	Agricultural	0.005
				61	Govt. Land	Agricultural	0.004
				143	Govt. Land	Residential	0.096
				145	Govt. Land	Agricultural	0.005
			(7)Bamun Gaon	34	Private	Agricultural	0.103
				164	Private	Agricultural	0.029
				26/260	Private	Agricultural	0.067
				26/261	Private	Agricultural	0.067
				166/278	Private	Agricultural	0.161
				165/279	Private	Agricultural	0.147
				164/280	Private	Agricultural	0.063
				163/281	Private	Agricultural	0.054
				178/284	Private	Residential	0.021
				160/269	Private	Agricultural	0.013
				6	Govt. Land	Agricultural	0.038
				7	Govt. Land	Agricultural	0.151
				33	Govt. Land	Agricultural	0.217
				28	Govt. Land	Agricultural	0.013
				171/327	Govt. Land	Agricultural	0.174
				178	Govt. Land	Residential	0.028
				231	Govt. Land	Road side	0.013
				232	Govt. Land	Road	0.020
				233	Govt. Land	Road side	0.033

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				234	Govt. Land	Road side	0.043
				235	Govt. Land	River	0.094
				34/311	Govt. Land	Road	0.050
		(2)Uttarkhola	(8)Borkhal	52 part	Private	Agricultural	0.094
				278 part	Private	Agricultural	0.058
				277 part	Private	Agricultural	0.100
				275	Private	Agricultural	0.013
			(9)Kumarbori	130	Private	Residential	0.011
			(10)Nizkhula	381	Private	Residential	0.107
				439	Private	Residential	0.006
			(11)Hatkhola	13	Private	Residential	0.010
			(12)Khulapathar	278	Private	Agricultural	0.283
				301	Private	Residential	0.044
				276	Private	Residential	0.082
			(13)BanparaDorapani	96	Private	Agricultural	0.010
			(14)Palahguri	404	Private	Residential	0.115
				403	Private	Residential	0.026
				406	Private	Residential	0.049
				408	Private	Residential	0.026
				407	Private	Residential	0.018
				405	Private	Agricultural	0.050
				340	Private	Residential	0.082
				341	Private	Agricultural	0.120
				183	Private	Residential	0.060
				329	Private	Residential	0.100
				363	Private	Residential	0.006
				318	Private	Agricultural	0.026
				254	Private	Residential	0.082
				264	Private	Agricultural	0.119
			(15)Uttar Dharamtul	268	Private	Agricultural	0.074
				269	Private	Agricultural	0.007
				350	Private	Agricultural	0.007
				351	Private	Agricultural	0.040
				356	Private	Agricultural	0.040

	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				357	Private	Agricultural	0.029
				359	Private	Agricultural	0.039
				361	Private	Agricultural	0.007
				360	Private	Agricultural	0.007
				369	Private	Agricultural	0.222
				370	Private	Agricultural	0.354
				371	Private	Agricultural	0.919
				377	Private	Agricultural	0.215
				378	Private	Agricultural	0.228
				379	Private	Agricultural	0.231
				380	Private	Agricultural	0.639
				381	Private	Agricultural	0.383
				383	Private	Agricultural	1.445
				384	Private	Agricultural	0.487
				385	Private	Agricultural	0.037
				412	Private	Agricultural	0.397
				413	Private	Agricultural	0.217
				415	Private	Agricultural	0.026
				236	Private	Agricultural	0.015
				235	Govt. Land	Agricultural	0.024
				416	Govt. Land	Road	0.059
				443	Govt. Land	Road side	0.086
				439	Govt. Land	Road side	0.127
				258	Govt. Land	Road	0.005
				282	Govt. Land	Road	0.045
				434	Govt. Land	Road side	0.016
				437	Govt. Land	Road	0.020
				438	Govt. Land	Road side	0.043
				440	Govt. Land	Library	0.029
				446	Govt. Land	Road	0.055
				450	Govt. Land	Road side	0.086
			(16) Pub Dharamtul	140	Private	Agricultural	0.011
				225	Private	Agricultural	0.019
				278	Private	Residential	0.004

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					279	Private	Residential	0.009
					207	Private	Agricultural	0.007
					80	Private	Agricultural	0.027
					11	Govt. Land	Road	0.018
					13	Govt. Land	Agricultural	0.021
					391	Govt. Land	Agricultural	0.024
			(17) Thekeraguri		248	Govt. Land	Agricultural	0.171
					249	Govt. Land	Agricultural	0.103
					259	Govt. Land	Agricultural	0.071
					260	Govt. Land	Agricultural	0.066
					302	Govt. Land	Agricultural	0.321
					303	Govt. Land	Road	0.040
					305	Govt. Land	Agricultural	0.207
					322	Govt. Land	Road	0.067
					328	Govt. Land	Road	0.024
					232	Govt. Land	Residential	0.123
					252	Govt. Land	Road	0.171
			(18) Morikallong		548	Private	Agricultural	0.027
					375	Govt. Land	Railway road side	0.120
					376	Govt. Land	Railway road side	0.045
					377	Govt. Land	Railway line	0.134
					378	Govt. Land	Railway road side	0.074
					379	Govt. Land	Railway road side	0.106
					464	Govt. Land	Road side	0.003
					470	Govt. Land	Road	0.003
					481	Govt. Land	Road	0.003
					197	Govt. Land	Reserved	0.019
					448	Govt. Land	Road	0.020
					485	Govt. Land	Road	0.012
					550	Govt. Land	Road	0.087
			(19) Rupaibori		525	Govt. Land	Agricultural	0.201
					739	Govt. Land	Agricultural	0.230
					877	Govt. Land	Road	0.007
			(20) Duruladubi		3	Govt. Land	Road side	0.298



	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)
				4	Govt. Land	Road	0.011
				43	Govt. Land	Agricultural	0.004
				44	Govt. Land	Road side	0.474
				48	Govt. Land	Road side	0.225
				59	Govt. Land	Road	0.007
				78	Govt. Land	Road side	0.830
				87	Govt. Land	Agricultural	0.004
				88	Govt. Land	Agricultural	0.004
				104	Govt. Land	Road	0.013
				136	Govt. Land	Rivulet	0.404
				116	Govt. Land	Road	0.763
				47	Govt. Land	Road	0.028
		(21)	Bangaldhara	1083	Govt. Land	Road side	0.013
				1144	Govt. Land	Road	0.005
				1171	Govt. Land	Agricultural	0.027
				1178	Govt. Land	Road side	0.020
				1179	Govt. Land	Road	0.020
				1180	Govt. Land	Road side	0.037
				1181	Govt. Land	Agricultural	0.173
				1203	Govt. Land	Road	0.005
				1216	Govt. Land	Agricultural	0.074
				1229	Govt. Land	Agricultural	0.087
				1484	Govt. Land	Pond	0.029
				1588	Govt. Land	Reserved	0.040
		(22)	Morakallong	4	Govt. Land	Agricultural	0.007
				38	Govt. Land	Road	0.034
				94	Govt. Land	Road	0.025
		(23)	Ahatguri	14	Govt. Land	Reserved	0.126
				37	Govt. Land	Road	0.012
				56	Govt. Land	Veterinary	0.063
				59	Govt. Land	L.P. School	0.107
				180	Govt. Land	Road	0.047
				181	Govt. Land	Road side	0.021
				182	Govt. Land	Road side	0.055
				774	Govt. Land	Commercial	0.073

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				772	Govt. Land	Reserved	0.122
				222	Govt. Land	Reserved	0.040
				225	Govt. Land	Road	0.011
				223	Govt. Land	Reserved	0.025
			(24) Chipiri Beel	72	Govt. Land	Pipe line	0.023
				11	Govt. Land	Road	0.020
				28	Govt. Land	Road	1.496
				37	Govt. Land	Road	0.004
				3	Govt. Land	Agricultural	0.285
				83	Govt. Land	Road	0.007
			(25) Mikirgaon	659	Govt. Land	Road side	0.027
				704	Govt. Land	Road side	0.179
				705	Govt. Land	Agricultural	0.004
				724	Govt. Land	Agricultural	0.005
				730	Govt. Land	Pond	0.035
				758	Govt. Land	Agricultural	0.039
				781	Govt. Land	Road side	0.008
				797	Govt. Land	Agricultural	0.147
				809	Govt. Land	School	0.064
				810	Govt. Land	School	0.060
				825	Govt. Land	Reserved	0.123
				828	Govt. Land	Road	0.013
				837	Govt. Land	Commercial	0.027
			(26) Alisinga	365	Private	Residential	0.051
				373	Private	Agricultural	0.013
				374	Private	Agricultural	0.016
				375	Private	Agricultural	0.013
				376	Private	Agricultural	0.020
				344	Private	Agricultural	0.020
				352	Private	Agricultural	0.017

[F. No. NHAI/13011/10/LA-NB/2003]

PRABHAKAR, Dy. Secy.